



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र 1933 (श0)  
(सं0 पटना 86) पटना, सोमवार, 28 मार्च 2011

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं  
24 मार्च 2011

एस0 ओ0 15, दिनांक 28 मार्च 2011—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार-राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं । अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-02 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे ।

अनुसूची-1(अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960=100)
जुलाई 2010	178	4.63X4.93	4 0 6 3.0 1
अगस्त 2010	178	4.63X4.93	4 0 6 3.0 1
सितम्बर 2010	179	4.63X4.93	4085.83
अक्टूबर 2010	181	4.63X4.93	4131.48
नवम्बर 2010	182	4.63X4.93	4 1 5 4.3 1
दिसम्बर 2010	185	4.63X4.93	4 2 2 2.7 9
योग:	—		2 4 7 2 0.4 3
औसत:	$2 4 7 2 0.4 3 \div 6 = 4 1 2 0.0 7$		4 1 2 0.0 7

## अनुसूची-1(ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम:- (1) पापड़ उद्योग, (2.) नाविक के नियोजन, (3.) अगरबत्ती उद्योग, (4.) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर)/ अधिसूचना संख्या- 4991, दिनांक 01 अक्टूबर 2008

## अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	मूल न्यूनतम मजदूरी +भी०डी०ए०- 01 अक्टूबर 2009+01 अप्रिल 2010+01 अक्टूबर 2010 से (रुपये में)	भी०डी०ए० प्रभावी की तिथि 01 अप्रिल 2011 से (रुपये में)	कुल मजदूरी (3+4) 01 अप्रिल 2011 से (रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	89.00+11.00+10.00+ 4.00=114.00 प्रतिदिन	6.00	120.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	92.00+11.00+11.00+ 4.00=118.00 प्रतिदिन	7.00	125.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	113.00+14.00+12.00+ 6.00=145.00 प्रतिदिन	8.00	153.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	138.00+17.00+15.00+ 7.00=177.00 प्रतिदिन	10.00	187.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय/ लिपिकीय	2553.00+312.00+ 285.00+131.00= 3281.00 प्रतिमाह	175.00	3456.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2010 के औसत के आधार पर अप्रिल, 2011 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं० 5/एम०डब्लू०-402/08 श्र०सं०-825)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गरीब साहु,  
सरकार के अपर सचिव।

24 मार्च 2011

एस० ओ० 16, एस० ओ० 15, दिनांक 28 मार्च 2011 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० 5/एम०डब्लू०-402/08 श्र०सं०-826)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गरीब साहु,  
सरकार के अपर सचिव।

*The 24th March 2011*

S.O. 15, dated 28th March 2011—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act and also consulting the Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for variable dearness Allowance in the Minimum Rate of Wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the employment mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-2 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

**Schedule-1 (A)**

Month & Year	Index No. Base Year ( 2001=100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year ( 1960=100)
1.	2.	3.	4.
July 2010	178	4.63X4.93	4 0 6 3 . 0 1
August 2010	178	4.63X4.93	4 0 6 3 . 0 1
September 2010	179	4.63X4.93	4085.83
October 2010	181	4.63X4.93	4131.48
November 2010	182	4.63X4.93	4 1 5 4 . 3 1
December 2010	185	4.63X4.93	4 2 2 2 . 7 9
Total	—		2 4 7 2 0 . 4 3
Average	$2 4 7 2 0 . 4 3 \div 6 = 4 1 2 0 . 0 7$		4 1 2 0 . 0 7

**SCHEDULE-I(B)**

Name of employment - (1.) Papad Industry (2.) Sailars employment (3.) Agarbati Industry (4.) Employment of Safaies Karamcharis (Exculding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993 )/ Notification No.- 4991, dated. 1<sup>st</sup> October 2008

**SCHEDULE -II**

Sl. No	Categories of Workers	Basic Minimum Wage+V.D.A.- 1st October 2009+ 1st April 2010+01 October 2010 (In. Rs.)	V.D.A. Effective date 1st April 2011 (In. Rs.)	Total wage (3+4) 1st April 2011 (In. Rs.)
1	Unskilled	89.00 +11.00+10.00+ 4.00=114.00 per day	6.00	120.00 per day
2	Semi skilled	92.00+11.00+11.00+ 4.00=118.00 per day	7.00	125.00 per day
3	Skilled	113.00 +14.00+12.00+ 6.00=145.00 per day	8.00	153.00 per day
4	Highly Skilled	138.00+ 17.00+15.00+ 7.00=177.00 per day	10.00	187.00 per day
5	Supervisory/ Clerical	2553.00+312.00+ 285.00+131.00= 3281.00 Per month	175.00	3456.00 Per month

These rates of variable dearness Allowance will be based on the average of all India Consumer price index on which the variable Dearness Allowance has been fixed / revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employment and will be deemed as variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of July—December, 2010 payable at the aforesaid rates from April, 2011 and there after increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of all India Consumers Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- .-402 /08 L&R- 825)

By order of the Governor of Bihar,

GARIB SAHU,

*Additional Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 86-571+150-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>